



जनसम्पर्क कार्यालय: एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

## समाचार

### मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार



**जबलपुर, 15 दिसंबर।** मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई को 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं केन्द्रीय ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह की उपस्थिति में जर्मन कंसलटेंट व प्रोग्राम कॉआर्डिनेटर जीआईजेड डा. विल्फ्रेड डेम एवं ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशिएन्सी (बीईई) के डायरेक्टर जनरल श्री अभय बाकरे ने ताप विद्युत सेक्टर में, देश में, लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक ऊर्जा बचत करने के लिए पुरस्कृत किया गया। इस पुरस्कार को मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की ओर से प्रबंध संचालक श्री ए. पी. भैरवे एवं अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई के मुख्य अभियंता श्री वी. के. कैथवार ने ग्रहण किया।

**पावर जनरेटिंग कंपनी के तीन थर्मल पावर स्टेशनों ने अर्जित किया लक्ष्य-**नेशनल मिशन फॉर इनहेन्सड इनर्जी एफिशिएन्सी (NMEEN) के द्वारा ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशिएन्सी के माध्यम से प्रारंभ की गई परफार्म अचीव एंड ट्रेड (PAT) स्कीम के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई, संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी ने ऊर्जा बचत के लक्ष्य को अर्जित किया। निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर हीट रेट प्राप्त करने पर पावर जनरेटिंग कंपनी के सभी ताप विद्युत गृहों को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं। जिन्हें लक्ष्य प्राप्त न करने वाले संस्थानों को बेचा जा सकता है।

**चर्आई को 88057 ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट मिलने पर मिला पुरस्कार-**अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्आई, को पी.ए.टी. (PAT) स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करने पर कुल 88057 ऊर्जा बचत प्रामाण पत्र प्राप्त हुए हैं। एक ऊर्जा बचत पत्र एक टन आइल की ऊर्जा के समतुल्य ऊर्जा बचत पर प्रदान किया गया है। इससे न सिर्फ ईंधन की बचत हुई अपितु जलवायु अनुकूल विकास की प्रक्रिया में विशेष योगदान दिया गया।

**समाचार क्रमांक:544/2017**

(राकेश पाठक )  
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी